

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 1981/वैसाख 10, 1903

No. 165] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 1981/VAISAKHA 10, 1 90

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1981

सा० का० नि० 317(अ) —केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैराफिन सोम (पूति, सविनरण एवं मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् —

1 (1) इस आदेश को पैराफिन सोम (पूति, सविनरण एवं मूल्य निर्धारण) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1981 कहा जाएगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. पैराफिन मोम (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 के साथ संलग्न अनुसूची "क" को निम्न अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"अनुसूची 'क'

[धारा 2(ब) देखें]

पैराफिन मोम की किस्म	आई० एस० आई० विनिष्ट संख्या	दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन और बम्बई की वितरण कंपनियों के भंडारण के बाहर प्रति मी० टन रु०
(i) पी० आई० ग्रेड	आई० एस०-4654-1974/टाइप 1	8250
(ii) प्रथम क्वालिटी	आई० एस०-4654-1974/टाइप-2	8150
(iii) सेच क्वालिटी	आई० एस०-4654-1974/टाइप-3	8200"

[फाइल सं० पी-11021/2/79 सप्ताई]

एम० पी० सोरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

ORDER

New Delhi, the 30th April 1981

G.S.R.317(E) .—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the paraffin wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972, namely :—

1.(1) This Order may be called the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) (Second Amendment) Order, 1981.

(2) It shall come into force at once.

2. For schedule 'A' appended to the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972, the following Schedule shall be substituted, namely -

“SCHEDULE ‘A’

[See clause 2 (f)]

(Kinds of Paraffin Wax	IS I Specification No	Rupees per metric tonne ex-tho Distributing Companies Storage points at Digboi Calcutta, Madras Cochin and Bombay
(i) P I Grade	IS-4654-1974/Type 1	8250
(ii) First Quality	IS-4654-1974/Type 2	8150
(iii) Match Quality	IS-4654-1974/Type 3	8200*

[File No. P-11021 /2/79-SUP]
M P. MODI, Jt Secy

